

## कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जून, २०१७ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. दिनांक 28.06.2017 के पत्र सं. 39011/11/2015-स्था.(ख) द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की एक प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय को सौंपी गई जिसे रॉयल सिविल सेवा आयोग, भूटान एवं संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के बीच मौजूदा संबंध को सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 29.05.2017 को संपादित किया गया था।
2. दिनांक 21.06.2017 को तृतीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गृह कल्याण केंद्र से 250 योग साधकों ने आयुष मंत्रालय द्वारा कर्नाट प्लेस, लोधी गार्डन, तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर दिल्ली, देहरादून, नागपुर, मुम्बई, बेंगलोर, कोलकाता एवं चेन्नई में गृह कल्याण केंद्र के 750 योग साधकों ने अपने संबंधित समाज सदनों में योग सत्र आयोजित किए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पदाधिकारियों ने नॉर्थ ब्लॉक के सामने योग किया।
3. माननीय राज्यमंत्री (कार्मिक) द्वारा 29 जून, 2017 को नॉर्थ ब्लॉक में भर्ती प्रशिक्षण पर समग्र ऑन लाईन/संशोधित मॉड्यूल (सीओएमएमआईटी) नामक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का डिजिटल रूप में प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम नए भर्ती किए गए राज्य सरकार के मुख्य पदाधिकारियों में जेनरेकि एवं डोमेन विशिष्टता वाली क्षमताएं विकसित करने के लिए 2014-15 में प्रारंभ किए 12 दिवसीय भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) का पूरक होगा।
4. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची 'क' एवं 'ख' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में 07 मामलों में नियुक्तियों को अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में सत्रह (17) अध्यक्षों/सदस्यों की नियुक्तियों, स्वायत्त निकायों में छह (06) मुख्य कार्यकारियों की नियुक्तियों, समयपूर्व प्रत्यावर्तन के चार (04) प्रस्तावों, मंत्रियों के ओएसडी की नियुक्ति के एक (01) प्रस्ताव, समय विस्तार देने के तीन (03) प्रस्तावों, कार्यकाल में कमी करने के एक (01) प्रस्ताव, और पारिश्विक पारी के एक (01) प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल सचिव, एसीसी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। एक (01) अधिकारी

को सीवीओ नियुक्त किया गया है और नौ (09) अधिकारियों को केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के प्रस्ताव के अधीन बनाए रखा गया है।

5. माननीय राज्यमंत्री (कार्मिक) द्वारा दिनांक 22/06/2017 को अनुशासनिक कार्यवाही की निगरानी के लिए ऑनलाईन प्रणाली आरंभ की गई। नई प्रणाली से भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही में तेजी आएगी।
6. दिनांक 02.06.2017 को माननीय राज्यमंत्री (कार्मिक) द्वारा नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा 2016 में सफल उम्मीदवारों को सम्मानित किया गया और उनके साथ चर्चा की गई।
7. दिनांक 02.06.2017 को सचिव (कार्मिक) द्वारा विभागीय कैंटीन में सब्जियों के अवशेष का उपयोग कर खाद बनाने तथा कचरे को उचित ढंग से अलग-अलग रखने के लिए हरे एवं नीले रंग के पात्रों (कंटेनरों) के उपयोग की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया।
8. वर्ष 2015 बैच के आईएएस अधिकारियों की दिनांक 03.07.2017 से 29.09.2017 तक 3 माह के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सहायक सचिव के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के रूप में तैनाती के लिए आदेश जारी किए गए [का.जा. सं. 31/26/2017-ईओ (एमएम-1) दिनांक 27 जून, 2017]
9. अखिल भारतीय सेवा (निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) संशोधन नियमावली 2017, दिनांक 15 जून, 2017 को अधिसूचित की गई।
10. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) संशोधन नियमावली, 2017 दिनांक 02.06.2017 को अधिसूचित की गई।
11. इस विभाग के कर्मचारियों के लिए दिनांक 14 जून, 2017 को निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया था।
12. भारतीय रेड क्रॉस सोसाईटी, नई दिल्ली के सहयोग से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 21.06.2017 को नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया जिसमें 43 कर्मचारियों ने रक्तदान किया।